

## VIKAS eCOTECH LTD.

---

Ph: + 91 -1143144444 Email: [info@vikasecotech.com](mailto:info@vikasecotech.com) . Website: [www.vikasecotech.com](http://www.vikasecotech.com)  
CIN – L65999DL1984PLC019465

### ELECTRONIC FILING

VETL/BM/08/04/2020

May 15, 2020

Listing Department  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza  
Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai 400 051

Deptt of Corporate Services  
BSE Limited  
Phirozee Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai 400 001

**NSE Symbol: VIKASECO**

**Scrip Code: 530961**

**Sub: Intimation regarding completion of dispatch of Notice of Postal Ballot and submission of Newspaper Advertisement made in this regard**

Dear Sir/Madam,

In continuation of our letter dated May 14, 2020, under the cover of which Postal Ballot along-with necessary annexure were submitted to the Stock Exchange(s) and pursuant to Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Notice of Postal Ballot and explanatory statement along with Postal Ballot Form has been dispatched on Thursday, May 14, 2020 to all the Members of the Company whose name appeared in the Register of Members as on Friday May 8, 2020 (the cut off date)

The 'Notice of Postal Ballot and remote E Voting' has been published in Financial Exoress (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers dated Friday, May 15, 2020. A copy of the publication in newspapers is attached herewith for your ready reference and record.

We request you to kindly take the above information on your record and oblige.

Thanking You,

Yours truly,  
For Vikas Ecotech Limited

Sd/-  
Pooja Vanjani  
(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl : a/a

Regd. Off: Vikas House, 34/1, East Punjabi Bagh, New Delhi – 110026

---

Plant 1 : Industrial Growth Centre, Phase-I, SIDCO Complex, Distt. Samba-187 121 (J&K)  
Plant 2 : G-24-30, Vigyan Nagar, RIICO Indl. Area, Shahjahanpur, Distt. Alwar-301 706 (Raj)

## Teva files petition in US court against Aurobindo Pharma over cancer drug

PRESS TRUST OF INDIA  
Hyderabad, May 14

**TEVA PHARMACEUTICALS**, along with Cephalon and Eagle Pharmaceuticals, has filed a petition in a US court against Aurobindo Pharma alleging that the Indian drug-maker is planning to come out with a generic version of Bendeke, a cancer medicine, before expiration of its patents.

Bendeke (bendamustine hydrochloride) is indicated for chronic lymphocytic leukaemia and indolent B-cell non-Hodgkin lymphoma.

Eagle, the patent-holder, has provided licence to Cephalon the right to sue for infringement of the drug and in 2015, Cephalon assigned its rights to Teva Pharmaceuticals.

Teva filed a probable patent infringement petition on May 11 against Aurobindo in the US district court for the District of Delaware.

On April 6, Aurobindo Pharma had sent a letter (notice letter) to Teva, saying that it had submitted US FDA an Abbreviated New Drug Application (ANDA) with paragraph IV Certifications to make generic version before expiration of the patents of Bendeke Injection, 100 mg/4 mL (25 mg/mL), the



petition said.

Teva sought the court a permanent injunction pursuant to, among other things, enjoining Aurobindo, its officers, agents, servants, employees and attorneys, and all persons acting in concert with them, from making, using, selling, offering for sale, marketing, distributing, or importing Aurobindo's ANDA product which allegedly infringes the patents-in-suit.

Various patents of bendamustine expire through 2033. Under Paragraph IV Patent Certifications, a company can seek FDA approval to market a generic drug before the expiration of patents related to the branded medicine that the generic seeks to copy.

Acty-based pharmaceutical company's senior official said patent infringement cases are not common for generic drug-makers in the US and the lawsuit will not have any implications on the performance of the company.

FE BUREAU  
New Delhi, May 14

**THE ORGANISED DINE-IN** segment of the restaurant industry may see its revenues slashed by as much as 40-50% in the current financial year as consumers are unlikely to get back to restaurants after the lockdown is lifted, according to a recent report by Crisil Research.

Due to the low demand and social distancing norms, restaurants will operate at 25-30% of their monthly service levels in the first 45 days after the lockdown is withdrawn. With restrictions on gatherings and public movement likely to be extended again in Mumbai and Delhi-National Capital Region, curbs on dine-in in the regions will continue or they may be allowed to operate only at low service levels, the report said.

Mumbai and Delhi-NCR account for nearly 50% of the total organised restaurant market.

The order volumes for the total organised restaurant sector have dipped 90% during the lockdown with online orders for restaurants also having shrunk 50%-70%. Online orders may, however, pick up in the long run



as customers are expected to refrain from dining out.

The dine-in segment accounts for 75% of the business within the organised sector, while online delivery/take-away makes up the rest. Low utilisation levels are likely to prompt the industry to reduce fixed costs through outer closure, job and salary cuts, analysts said in the report.

### NOTICE

#### Declaration of Dividend Under Axis Arbitrage Fund :

Axis Mutual Fund Trustee Limited, Trustee to Axis Mutual Fund ("the Fund") has approved the declaration of dividend under the following Scheme, the particulars of which are as under:

Name of the Scheme/ Plan(s)	Quantum of Dividend (₹ per unit)	Record Date*	Face Value (₹ per unit)	NAV as on May 13, 2020 (₹ per unit)
Axis Arbitrage Fund - Regular Plan - Dividend Option	0.05	May 20, 2020	10	10.5166
Axis Arbitrage Fund - Direct Plan - Dividend Option	0.05	May 20, 2020	10	11.2056

\* As reduced by the amount of applicable statutory levy, if any.

\* or immediately following Business Day if that date is not a Business Day.

**Pursuant to payment of dividend, the NAV of the above stated dividend options of the scheme/plan would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.**

The dividend would be paid to the beneficial owners / unit holders whose names appear in the statement of beneficial owners maintained by the depositories under the said scheme/plan at the close of business hours on the record date and to the unit holders holding units in physical form, whose names appear in the Register of unit holders maintained with Registrar and Transfer Agent under the dividend option(s) of the scheme/plan as at the close of the business hours on the record date. Investors may kindly note that declaration of dividend is subject to availability of distributable surplus on the record date/ex-dividend date. In case the distributable surplus is less than the quantum of dividend on the record date/ex-dividend date, the entire available distributable surplus in the scheme/plan will be declared as dividend.

#### NOTICE-CUM-ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID)/ KEY INFORMATION MEMORANDUM ('KIM') OF SCHEMES OF AXIS MUTUAL FUND ("THE FUND")

##### A. Change in the Benchmark of Axis Ultra Short Term Fund :

Notice is hereby given for change in benchmark of the following scheme with effect from May 29, 2020:

Scheme Name	Existing Benchmark	Revised Benchmark
Axis Ultra Short Term Fund	CRISIL Ultra Short Term Debt Index	NIFTY Ultra Short Duration Debt Index

Justification for change of benchmark - The proposed benchmark will be more representative in benchmarking the scheme performance of the scheme.

##### B. SIP Pause Facility:

Notice is hereby given that Point no. 8 of the terms and conditions of offering of SIP Pause facility in schemes of Axis Mutual Fund offering Systematic Investment Plan (SIP), introduced vide Notice Cum Addendum dated April 21, 2020, stands replaced with the following:

8. In case of multiple SIPs registered in a scheme, SIP Pause facility will be made applicable only for those SIP instalments whose SIP date, frequency, amount and Plan is specified clearly in the form.

All other terms and conditions pertaining to SIP Pause facility shall remain unchanged.

The relevant sections of SID of relevant scheme(s) shall stand modified in accordance with the above. All other terms & conditions in the SID of the relevant scheme(s) of the Fund remains unchanged.

This addendum forms an integral part of the SID and KIM of relevant scheme(s) of the Fund.

Investors are requested to kindly take note of the above.

For Axis Asset Management Company Limited  
(CIN - U65991MH2009PLC189558)  
(Investment Manager to Axis Mutual Fund)

Sd/-

Chandresh Kumar Nigam  
Managing Director & Chief Executive Officer

Place: Mumbai  
Date: May 14, 2020  
No. : 10/2020-21

Statutory Details: Axis Mutual Fund has been established as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882, sponsored by Axis Bank Ltd. (liability restricted to ₹ 1 lakh). Trustee: Axis Mutual Limited Investment Manager: Axis Asset Management Company Limited (the AMC). Risk Factors: Axis Bank Ltd. is not liable or responsible for any loss or shortfall resulting from the operation of the schemes. Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



Axis House, First Floor, C2, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025, India.  
TEL: (022) 4325-5161, FAX: (022) 4325-5199, EMAIL: customerservice@axismf.com, WEBSITE: www.axismf.com, EASYCALL: 1800 221 322 ADDITIONAL CONTACT NUMBER: 8108622211

**Mumbai and Delhi-NCR** account for nearly 50% of the total organised restaurant market

ing to the firm's estimates, fixed costs account for about 30-35% of the income generated by the sector.

The ₹1.5-lakh crore organised restaurant business employs nearly 40 lakh kitchen and restaurant workers, as per estimates by Crisil Research.

"Once the restrictions are lifted, restaurants will have to rework their business models and overcome operational challenges. With consumers turning more health-conscious, hygiene protocols at restaurants and supply chain will need to improve materi-

ally, which will increase cost," said Anjali Nathwani, associate director at Crisil Research.

The decline in restaurant revenues will, in turn, impact horticulture farmers, dairy producers, food processors, suppliers and logistics and delivery partners. Unorganised food producers, many of which have high exposure to the restaurants sector, will be hit the hardest due to a sharp decline in bulk demand this fiscal.

**NEULAND LABORATORIES LIMITED**  
(CIN: L85195TG1984PLC004393)  
Registered office: Sanali info park, A Block, Ground Floor, 8-2-120/113, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034  
Tel: +91-40-30211600; Website: www.neulandlabs.com

### NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, May 22, 2020, inter-alia, to consider and take on record the Audited Financial Results of the Company for the year ended March 31, 2020.

For Neuland Laboratories Limited  
Sd/-  
Sarada Bhamidipati  
Company Secretary

**Western Coalfields Limited**  
(A Subsidiary of Coal India Ltd)

### GENERAL NOTICE

Ref: No. WCL/GM(CMC)/2016/2217. Tenders of WCL/areas are available at: [www.coalindiatenders.nic.in](http://www.coalindiatenders.nic.in), [www.aprc.gov.in](http://www.aprc.gov.in). Bids can be submitted online through [www.coalindiatenders.nic.in](http://www.coalindiatenders.nic.in) only. Compendium/Annexum if any are published in [www.coalindiatenders.nic.in](http://www.coalindiatenders.nic.in) only. As informed by the General Manager (CMC), WCL/HQ, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur.

Common Window Advertisement: Reference No. Nag/WCL/M/Adm/200. All the tenders issued by WCL for procurement of goods, works and services are available on website of Coal India Ltd. [www.coalindia.in](http://www.coalindia.in) respective subsidiary company. CL e-procurement portal <http://e-procurement.coalindia.in> and Central Public Procurement Portal <http://cppeprocure.gov.in>. In addition, procurement is also done through GeM portal <http://gem.gov.in>. As informed by GMM/HQD, WCL, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur.

For further details log on to our website <http://www.wclindia.in> or <http://procure.gov.in> or <http://cppeprocure.gov.in>. "Give a missed call on toll free number 18002003040 to get our apps"

**VIKAS ECOTECH LTD.**  
(CIN - L68999DL1984PLC13466)  
Regd. Off: Vikas House, 34/1, East Punjabi Bagh, New Delhi - 110028  
Ph: +91-1143444444 | Email: [info@vikasecotech.com](mailto:info@vikasecotech.com) | Website: [www.vikasecotech.com](http://www.vikasecotech.com)

**NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE VOTING**  
Members are hereby informed that in terms of the amended Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Regulations, 2014, as amended from time to time, SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable laws and regulations, the approval of Members of Vikas Ecotech Limited ("the Company") is being sought for the following Resolutions by way of Postal Ballot including e-voting:

S.No	Description of Resolutions
1	Issuance of Fully Convertible Warrants on Preferential Basis to the person belonging to promoter and promoter group
2	Increase in Authorized Share Capital of the Company
3	Alteration of existing Clause V of the Memorandum of Association of the Company
4	Increase in the Total Shareholding Limits For All Foreign Institutional Investors (FII'S) Including their Sub-Accounts

The Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice along with explanatory statement and the Postal Ballot form on May 14, 2020 to all the Members whose names appear in the Register of Members as on Friday May 8, 2020 (the cut-off date).

through electronic mode to the Members whose email IDs are registered and

through physical mode, along with a self addressed prepaid envelope to the

Members whose email IDs are not registered.

The voting rights of the Members (through Postal Ballot form or Remote e-voting) shall be reckoned on the Equity Shares held by them as on the close of business hours on Friday, May 8, 2020, being the cut-off date for the purpose.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for providing e-voting facility to all the Members. Members are requested to note that the voting, both through postal ballot and e-voting will commence at 9.00 AM (IST) on Friday, May 15, 2020 and will end at 5.00 PM (IST) on Saturday, June 13, 2020. The Members can opt for only one mode of voting i.e. postal ballot or e-voting. The detailed procedure for voting has been provided in Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form, already circulated.

The Board of Directors of the Company ("the Board") by resolution dated May 11, 2020, has appointed Mr. S. Kumar G & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the postal ballot / remote e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that duly completed and signed postal ballots should reach the Scrutinizer on or before 5.00 PM (IST), Saturday, June 13, 2020. Postal Ballot Forms received after 5.00 PM (IST), Saturday, June 13, 2020 will not be considered as valid and voting through postal ballot or e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Any Member who does not receive the postal ballot form may either send an e-mail to [cs@vikasecotech.com](mailto:cs@vikasecotech.com) or may apply to Registrar and Share Transfer Agent of the Company at [vikas@vikasecotech.com](mailto:vikas@vikasecotech.com) and can obtain a duplicate postal ballot form.

The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form can also be downloaded from the Company's website and from the Stock Exchange website where the Company's shares are listed.

The result of the Postal Ballot (including remote voting) along with the Scrutinizer's Report, will be announced by the Managing Director of the Company or by any person as may be authorized by them at 9.00 PM on Monday, June 15, 2020 at Registered Office and literature will be displayed on the Company's Website besides being communicated to the Stock Exchanges, Depositories and Registrar and Share Transfer Agent.

In case of any queries or grievances relating to Postal Ballot/Remote e-voting, Members are requested to contact Mr. Vijay Pratap Singh, Assistant Assignments Limited, 4E/2, Aankh House, Jhandewalan Extension, New Delhi- 110055, Tel. No. 91-11-42541234, Mob No: 9868888998, Email: [info@vikas@vikasecotech.com](mailto:info@vikas@vikasecotech.com)

For Vikas Ecotech Limited  
Sd/-  
Pragya Vajranti  
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Delhi  
Date: May 15, 2020

## Collateral-free loan, revision of MSME definition bring cheers to textile industry

FE BUREAU  
Chennai, May 14

**THE INDIAN TEXTILE** industry, which consists of more than 80% as micro, small and medium enterprises (MSMEs), would gain immensely with the announcement of a major reforms package to the MSME sector as it has been well-timed to scale up in a big way. By announcing ₹3-lakh-crore collateral-free automatic loan for businesses, including MSMEs, this package will benefit 45 lakh small businesses, the industry felt.

Being the second-largest employment generator in India after agriculture, the textile industry sees the package announced by the prime minister and in detail by the finance minister, particularly for the MSME sector, will definitely bring the morale boost sought by the industry for long, said the Confederation of Indian Textile Industry (CITI), the apex body of textile sector in India.

The government had revised the definition of MSME, which means that it has increased the turnover limit up to ₹100 crore and investment limit up to ₹20 crore for medium-size units and likewise for small-size and micro-size ones. The fresh reforms package will greatly benefit over 80% of the textile

units in India across the value chain, especially the garment and made-up units, said T. Rajkumar, chairman, CITI.

According to Ashwin Chandran, chairman, Southern India Mills' Association (SIMA), since the textiles & clothing industry is predominantly MSME in nature, this will greatly benefit over 80% of the textile units, especially the garment and made-up units. SIMA chairman also said the marginal reduction of 2% in the employers and employees contribution in the EPF and 2% in the tax deducted at source and tax collected at source would help improve the liquidity to a certain extent.

The revision of MSME definition which had been the long-pending demand of the industry has finally seen the light of day. The government has finally changed the definition of MSME by allowing units with investment up to ₹1 crore in place of ₹25 lakh and units with turnover up to ₹5 crore to be called micro units.

The government has finally changed the definition of MSME by allowing units with investment up to ₹1 crore in place of ₹25 lakh and units with turnover up to ₹5 crore to be called micro units. The government has finally changed the definition of MSME by allowing units with investment up to ₹1 crore in place of ₹25 lakh and units with turnover up to ₹5 crore to be called micro units.

## Amazon Prime Video to globally premiere Gulabo Sitabo



FE BUREAU  
New Delhi, May 14

**AMAZON PRIME VIDEO** on Thursday announced it would globally premiere Amitabh Bachchan- and Ayushmann Khurrana-starrer *Gulabo Sitabo*. The Shoojit Sircar-directed movie will premiere in 200 countries and territories on Amazon Prime Video on June 12, 2020, the company said.

"The global release of *Gulabo Sitabo* on Prime Video will ensure maximum reach and visibility for the film not just in India but around the world, the firm added.

"*Gulabo Sitabo* is one of the most anticipated films of the year. We are happy to exclusively premiere *Gulabo Sitabo* on Prime Video. It is the first step in our endeavour to bring superior cinematic experiences to our customer's doorstep," said Vijay Subramaniam, director and head, content at Amazon Prime Video, India.

Following the development of global premiere of *Gulabo Sitabo*, multiplex chain Inox said it would like to "express extreme displeasure and disappointment" on an announcement made by a production house to release their movie directly on an OTT platform bypassing the theatrical window of run. "Such acts, though isolated, vitiate the atmosphere of mutual partnership and paint these content producers as fair-weather friends. Needless to say, Inox will be constrained to examine its options, and reserves all rights, including taking retentive measures, in dealing with such fair-weather friends," the multiplex chain said.



### TV TODAY NETWORK LIMITED

Regd. Office: F-26, First Floor, Connaught Circus, New Delhi-110 001. CIN : 192200CP1990PLC103001  
Website: [www.aajtakintoday.in](http://www.aajtakintoday.in), Email: [investors@aajtak.com](mailto:investors@aajtak.com), Telephone: 0120-4807100, Fax: 0120-4807172

#### EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31 MARCH 2020

(Rs. in lakhs, unless otherwise stated)

Sl.No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter ended 31st March 2020	Corresponding three months ended in the previous year 31st March 2019	Year ended 31st March 2020	Year ended 31st March 2019	Quarter ended 31st March 2020	Corresponding three months ended in the previous year 31st March 2019	Year ended 31st March 2020	Year ended 31st March 2019
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	20,821.66	17,484.98	85,636.98	73,900.20	20,830.83	17,589.82	85,722.32	74,224.17
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	4,525.10	3,918.54	21,977.80	20,264.47	4,476.16	3,960.03	21,792.90	20,392.72
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional Items)	4,525.10	3,918.54	21,977.80	20,264.47	4,476.16	3,960.03	21,792.90	20,392.72
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional Items)	2,924.01	2,368.06	14,216.45	13,004.09	2,779.64	2,404.79	13,936.02	13,110.16
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	2,924.01	2,368.06	14,216.45	13,004.09	2,779.64	2,404.79	13,936.02	13,110.16
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 5/- per share)	2,983.43	2,983.06	2,983.43	2,983.06	2,983.43	2,983.06	2,983.43	2,983.06
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of the previous year	-	-	84,250.35	86,361.30	-	-	84,210.56	86,610.95
8	Earning Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations):	4.90	3.97	23.83	21.80	4.66	4.03	23.36	21.97
	(a) Basic (in Rs.)	4.90	3.97	23.83	21.80	4.66	4.03	23.36	21.97
	(b) Diluted (in Rs.)	4.90	3.97	23.83	21.80	4.66	4.03	23.36	21.97

#### Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarter and Financial Year ended March 31, 2020 financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Financial Year ended March 31, 2020 financial results are available on the website of BSE ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and NSE ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and Company's website ([www.aajtakintoday.in](http://www.aajtakintoday.in)).
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on May 14, 2020.

Date: May 14, 2020  
Place: Noida

For and on behalf of the Board

KALLI PURIE BHANDAL  
Vice-Chairperson and Managing Director  
DIN: 30705318



